



HeartSine

Saver EVO®



Data management Software  
for samaritan® PAD & PDU

## samaritan® PAD और PDU\* Saver EVO® उपयोगकर्ता निर्देश

\* यूएसए में उपलब्ध नहीं।

## Saver EVO® उपयोगकर्ता निर्देश

इस दस्तावेज़ की जानकारी बिना किसी सूचना के बदली जा सकती है और यह HeartSine Technologies Inc. की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं दर्शाती है। इस मार्गदर्शिका का कोई भी भाग HeartSine Technologies Inc. की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना किसी भी कार्य के लिए फोटोकॉपी और रिकॉर्ड करने सहित किसी भी रूप में या इलेक्ट्रीकल या यांत्रिक किसी भी माध्यम से पुनरुत्पादित या प्रसारित नहीं किया जा सकता।

कॉपीराइट © 2014 HeartSine Technologies Inc.

सर्वाधिकार सुरक्षित।

“samaritan” HeartSine Technologies Inc. का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।

“Saver EVO” और “SCOPE” HeartSine Technologies Inc. के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

सभी अन्य ट्रेडमार्क और पंजीकृत ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

Saver EVO® 2014

### HeartSine Technologies Ltd.

Canberra House

203 Airport Road West

Belfast

BT3 9ED

उत्तरी आयरलैंड



टेलीफोन: +44 28 9093 9400 • फैक्स: +44 (0)28 9093 9401

वेबसाइट: [www.heartsine.com](http://www.heartsine.com) • ई-मेल: [support@heartsine.com](mailto:support@heartsine.com)

Hindi (India)

H013-001-336-0

## **Saver EVO® उपयोगकर्ता निर्देश**

Saver EVO® सॉफ्टवेयर आपको अपने samaritan® PAD और PDU स्मृति कार्ड से डिफ़िब्रीलेशन ईवेंट डेटा निकालने की सुविधा देता है। Saver EVO® ईवेंट डेटा को प्रिंट करने, आयात करने, और अन्य Saver™ और Saver EVO® उपयोगकर्ताओं को निर्यात करने के संबंध में पीसी पर सहेजे गए ईवेंट डेटा के प्रबंधन की भी सुविधा देगा।

Saver EVO® को एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस के साथ प्रदान किया जाता है जो एक पीसी पर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन और उपयोग की सुविधा देता है।

### **वेबसाइट से डाउनलोड करें**

1. <http://heartsine.com/support/system-updates/> पर जाएँ और 'Saver EVO सॉफ्टवेयर' के अंतर्गत "डाउनलोड करें" लिंक पर क्लिक करें।
2. डाउनलोड के बाद, Saver EVO को इंस्टॉल करने के लिए "SaverEVO\_setup.exe" को चलाएँ। (स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।)
3. उपयोगकर्ता लाइसेंस अनुबंध पढ़ें। यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको इस अनुबंध की शर्तों को स्वीकार करना होगा। शर्त स्वीकार करने के लिए "अग्रला" बटन क्लिक करें।
4. Saver EVO® को मानक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसके डिफ़ॉल्ट स्थान पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। स्वीकार करने के लिए "मैं सहमत हूँ" बटन क्लिक करें। यदि आप एक अनुभवी कंप्यूटर उपयोगकर्ता नहीं हैं तो इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदला नहीं जाना चाहिए।
5. यदि डिवाइस ड्राइवर प्रमाणन के लिए कहा जाए, तो "फिर भी जारी रखें" बटन क्लिक करें।

### **त्वरित निर्देश**

samaritan® PAD या PDU स्मृति कार्ड से रिकॉर्ड किया गया डिफ़िब्रीलेशन ईवेंट डेटा निकालने के लिए।

1. प्रासंगिक डिवाइस को पीसी से जोड़ें।
2. Saver EVO® सॉफ्टवेयर खोलें।
3.  बटन या  बटन को क्लिक करें।
4. सहेजे गए ईवेंट की सूची दिखाने के लिए  बटन क्लिक करें।
5. सूची से रिकॉर्ड किए गए आवश्यक ईवेंट को हाइलाइट करें।
6. ईवेंट देखने के लिए  बटन को क्लिक करें।

7.  बटन क्लिक करें और पीसी पर ईवेंट को सहेजने की आवश्यकतानुसार रोगी जानकारी दर्ज करें।
  
8. यदि आवश्यक हो, तो ईवेंट रिकॉर्ड प्रिंट करने के लिए,  क्लिक करें।

## Saver EVO® का उपयोग करना

Saver EVO® प्रारंभ स्क्रीन नीचे दिखाई गई है।



samaritan PAD - PAD विशिष्ट प्रकार्यों के लिए मेनू खोलता है। विवरण के लिए पृष्ठ 5 देखें।



samaritan PDU - PDU विशिष्ट प्रकार्यों के लिए मेनू खोलता है। विवरण के लिए पृष्ठ 12 देखें।



सहेजे गए ईवेंट प्रबंधित करें - पीसी पर सहेजे गए ईवेंट के लिए विशिष्ट प्रकार्यों का मेनू खोलता है। विवरण के लिए पृष्ठ 16 देखें।



Saver EVO से बाहर निकलें - Saver EVO® सॉफ्टवेयर से बाहर निकालता है।



Saver EVO® सेटिंग बदलें - Saver EVO® पासवर्ड बदलें और भाषा विकल्प चुनें। उपयोगकर्ता को Saver EVO® पुनरीक्षण जानकारी देखने की सुविधा भी देता है।

ऊपर दिए विशिष्ट मेनू का उपयोग करने के बारे में विवरण अगले अनुभागों में दिया जाएगा।

## Saver EVO® का samaritan® PAD के साथ उपयोग करना

Saver EVO® का उपयोग samaritan® PAD के साथ करने के लिए आपके पास PAD या Saver EVO® सॉफ्टवेयर के साथ दी गई USB डेटा केबल होनी चाहिए।

USB डेटा केबल का उपयोग करके, इसे samaritan® PAD और अपने पीसी पर USB पोर्ट से जोड़ें। Saver EVO® सॉफ्टवेयर खोलें।



Samaritan PAD बटन क्लिक करने से नीचे दी गई विंडो खुल जाएगी।



**Saver EVO® PAD एक्सेस स्क्रीन**



PAD डेटा - PAD से ईवेंट डेटा निकालने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। विवरण के लिए पृष्ठ 6 देखें।



PAD सेटिंग बदलें - samaritan® PAD पर नैदानिक परीक्षण चलाने या कॉन्फिगरेशन (वॉल्यूम, भाषा या समय) बदलने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। विवरण के लिए पृष्ठ 8 देखें।



वापस - Saver EVO® प्रारंभ स्क्रीन पर लौटने के लिए इस बटन पर क्लिक करें।

## samaritan® PAD से ईवेंट डेटा जानकारी निकालना

samaritan® PAD से डिफिब्रीलेशन ईवेंट डेटा निकालने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका samaritan® PAD पीसी

से कनेक्ट है और फिर  PAD डेटा बटन को क्लिक करें। यह PAD की स्मृति में खोज करेगा और रिकॉर्ड किए गए सभी ईवेंट की सूची बनाएगा और नीचे दिखाए अनुसार प्रदर्शित करेगा।



**Saver EVO® PAD  
ईवेंट लॉग सूची  
स्क्रीन**

- ✓ प्रतीक के साथ हरे पाठ में दिखाए गए ईवेंट वे ईवेंट होते हैं जिन्हें पीसी पर पहले ही सहेजा जा चुका है।



सभी सहेजें - सभी सहेजें बटन को क्लिक करने से PAD ईवेंट लॉग में सूचीबद्ध सभी ईवेंट पीसी पर एक फ़ाइल में सहेज दिए जाएँगे।

द्यान दें। इस विधि द्वारा सहेजे गए ईवेंट *Saver EVO®* इस संस्करण द्वारा देखने के लिए पुनर्प्राप्त नहीं किए जा सकते। इस फ़ाइल, से ईवेंट निकालने के लिए, *HeartSine Technologies* ग्राहक सहायता से संपर्क करें। बाद में निकालने के लिए ईवेंट को अलग-अलग सहेजने के लिए, कृपया पृष्ठ 7 पर *samaritan® PAD* पर ईवेंट देखना में "सहेजें" प्रकार्य देखें।



देखें - इस बटन को क्लिक करने से चयनित ईवेंट दिखाया जाएगा।



मिटाएँ - इस बटन को क्लिक करने से PAD ईवेट लॉग से सभी ईवेट मिटा दिए जाएँगे। डेटा मिटाने के विषय पर अधिक विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 8 देखें।




वापस - Saver EVO® एक्सेस स्क्रीन पर लौटने के लिए इस बटन पर क्लिक करें।

## samaritan® PAD पर ईवेंट देखना



क्लिक करें।

कोई ईवेंट देखने के लिए, सूची में ईवेंट को हाइलाइट करें और फिर देखें बटन क्लिक करें। यह ECG ट्रेस के साथ डिफिनीलेशन ईवेंट और ईवेंट लॉग को एक विंडो में दिखाएगा।



**Saver EVO® PAD**  
ईवेंट दृश्य विंडो

अब आप सहेजें बटन को क्लिक करके इस प्रदर्शित ईवेंट को पीसी पर सहेजना चुन सकते हैं। इस तरह से सहेजे गए ईवेंट को Saver EVO® में पुनर्प्राप्त किया और देखा जा सकता है। यह पीसी पर सहेजे गए ईवेंट की सूची में से रोगी को पहचान पाने के लिए जानकारी दर्ज करने के विकल्प देता है। रोगी के विवरण में अक्षरांकीय वर्ण हो सकते हैं और यदि चाहें तो हर फ़िल्ड को भरा या खाली छोड़ा जा सकता है।

**Enter Patient Details**

**Subject0002**

Record Type:	Subject
Surname:	<input type="text"/>
Forename:	<input type="text"/>
D.O.B.:	<input type="text"/>
Patient ID:	<input type="text"/>
Event Date and Time:	03 Mar 2014 14:39:12 GMT Standard Time
<input type="button" value="New Record Type"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

## Saver EVO® PAD रोगी विवरण विंडो

ध्यान दें. एक बार डिफिलोशन ईवेंट डेटा को आपके पीसी पर सहेज लिए जाने के बाद इस जानकारी को बदला नहीं जा सकता।

Saver EVO® ईवेंट वृश्य विंडो निम्न बटन भी प्रदान करती है:



ईवेंट प्रिंट करें - वृश्य विंडो में वर्तमान में प्रदर्शित किए जा रहे ईवेंट को प्रिंट करने के लिए यह बटन क्लिक करें।



प्रिंट पूर्वावलोकन - इस बटन को क्लिक करने से प्रिंट किए जाने वाले डेटा का पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।



वापस - Saver EVO® ईवेंट लॉग सूची स्क्रीन पर लौटने के लिए इस बटन पर क्लिक करें।

## samaritan® PAD पर स्मृति को मिटाना



samaritan® PAD की स्मृति को मिटाने के लिए मिटाएँ बटन को क्लिक करें

सावधानी के रूप में स्मृति को मिटाने से पहले Saver EVO® आपसे अपना पासवर्ड दर्ज करने को कहेगा। सही पासवर्ड दर्ज किए जाने पर samaritan® PAD की स्मृति को मिटा दिया जाएगा। डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने के बारे में जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ 18 पर Saver EVO® में पासवर्ड और भाषा बदलना देखें।

सावधानी: HeartSine अनुशंसा करता है कि मिटाने से पहले आप पूरी PAD स्मृति को डाउनलोड कर लें। भविष्य के संदर्भ के लिए इस जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाना चाहिए।

यह अनुशंसा की जाती है कि जब samaritan® PAD से ईवेंट डेटा निकाला जाए और पीसी पर सहेजा जाए, तो ईवेंट को PAD की स्मृति से हटा दिया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी अन्य डिफिलोशन ईवेंट से डेटा रिकॉर्ड करने के लिए पूरी स्मृति उपलब्ध है।

## samaritan® PAD सेटिंग बदलना



PAD सेटिंग बदलें बटन से उपयोगकर्ता samaritan® PAD की कुछ सुविधाओं को निम्नानुसार कॉन्फिगर कर सकते हैं:

- समय जाँचें/सेट करें
- नैदानिक परीक्षण चलाएँ

इसके अलावा, संबंधित अधिकार के साथ उपयोगकर्ता निम्न को भी बदल सकते हैं:

- वॉल्यूम
- भाषा
- मेट्रोनोम ध्वनि सक्षम/अक्षम



PAD सेटिंग बदलें बटन पर क्लिक करने से निम्न स्क्रीन पर एक्सेस प्राप्त होगी (अगला पृष्ठ देखें):



PAD समय जाँचें/सेट करें - यह बटन samaritan® PAD के समय को उनके पीसी के समय के साथ सिंक्रोनाइज़ करने की सुविधा देता है।



### Saver EVO® PAD समय जाँचें/सेट करें विंडो

सिंक्रोनाइज़ करें बटन को क्लिक करने पर samaritan® PAD का समय वैसा ही हो जाएगा जैसा उस पीसी का है जिससे इसे कनेक्ट किया गया है।

Saver EVO® PAD सेटिंग बदलें विंडो पर लौटने के लिए बंद करें बटन को क्लिक करें।



नैदानिक परीक्षण चलाएँ - यह बटन उपयोगकर्ताओं को यह जाँचने के लिए कुछ आधारभूत परीक्षण चलाने की सुविधा देता है कि samaritan® PAD कार्य कर रहा है। उपलब्ध नैदानिक परीक्षणों की सूची “इंप-डाउन” मेनू से प्राप्त की जा सकती है, जैसा नीचे दिखाया गया है।



### Saver EVO® PAD नैदानिक परीक्षण विंडो

SaverEVO जुड़े PAD डिवाइस का प्रकार पहचानेगा और परीक्षणों के दौरान उपयोगकर्ता के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त लेबल रेखाचित्र प्रदर्शित करेगा।



PAD कॉन्फिगरेशन संपादित करें - यह बटन उपयोगकर्ताओं को संलग्न PAD डिवाइस का वर्तमान वॉल्यूम, भाषा और मेट्रोनोम सेटिंग के साथ-साथ इसपर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर का संस्करण देखने की सुविधा देता है। PAD कॉन्फिगरेशन विंडो (नीचे प्रदर्शित) का उपयोग वॉल्यूम स्तर बदलने, भाषा चयन और मेट्रोनोम ध्वनि अक्षम या सक्षम करने के लिए किया जा सकता है। इन बदलावों को अनुरोध किए जाने पर आवश्यक पासवर्ड दर्ज करने पर ही निश्चित किया जा सकता है। डिफॉल्ट पासवर्ड बदलने के बारे में जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ 18 पर **Saver EVO®** में पासवर्ड और भाषा बदलना देखें।



### **Saver EVO®** PAD कॉन्फिगरेशन संपादित करें विंडो

भाषा विकल्पों को किसी ड्रॉप-डाउन मेनू से एक्सेस किया जाता है (भाषाओं का चुनाव केवल उन तक सीमित हो सकता है जो डिवाइस पर प्रोग्राम की गई हैं और/या जिस देश में डिवाइस खरीदा गया हैं)।

यदि भाषा बदली जाती है, तो कृपया जाँच लें कि पुष्टिकरण विंडो दिखाया जाता है, जैसा नीचे बताया गया है। प्रोग्रामिंग पूरी होने के बाद यदि यह संदेश नहीं दिखाया जाता है, तो कृपया अपने अधिकृत HeartSine वितरक या सीधे HeartSine से संपर्क करें।



और जाँचें कि डिवाइस को चालू करके और पहले संदेशों को सुनकर PAD पर भाषा सेट की गई है।

- वयस्क रोगी/बाल रोगी
- चिकित्सा सहायता बुलाएँ

## Saver EVO® उपयोगकर्ता निर्देश

जब आप सुनिश्चित हों कि आपके डिवाइस पर सही भाषा इंस्टॉल कर दी गई है, तो फिर आप डिवाइस को बंद कर सकते हैं।

## Saver EVO® का PDU के साथ उपयोग करना\*

Saver EVO® का samaritan® PDU स्मृति कार्ड के साथ उपयोग करने के लिए, आपको किसी ऐसे MMC/SD संगत कार्ड रीडर में कार्ड लगाना होगा जो Saver EVO® को चला रहे पीसी से कनेक्ट किया हुआ है या उसमें बिल्ट-इन है। कृपया नोट करें कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पहचानने में कुछ सेकंड या एक मिनट से अधिक लग सकता है कि कार्ड रीडर में कार्ड मौजूद है या नहीं।



PDU बटन को क्लिक करें। यह नीचे सब मेनू विंडो खोल देगा।



PDU डेटा - PDU स्मृति कार्ड से ईवेंट डेटा निकालने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। विवरण के लिए पृष्ठ 13 देखें।



PDU सेटिंग - कॉन्फिगरेशन सेटिंग देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। विवरण के लिए पृष्ठ 15 देखें।



वापस - Saver EVO® प्रारंभ स्क्रीन पर लौटने के लिए इस बटन पर क्लिक करें।

\* यूएसए में उपलब्ध नहीं

## PDU™ स्मृति कार्ड से ईवेंट डेटा निकालना

सुनिश्चित करें कि samaritan® PDU स्मृति कार्ड SD/MMC कार्ड रीडर में लगा है और  PDU डेटा बटन को क्लिक करें। यह उन ईवेंट की सूची देगा जो स्मृति कार्ड पर रिकॉर्ड किए गए हैं।



**Saver EVO®  
PDU ईवेंट लॉग सूची  
स्क्रीन**

घड़ी के प्रतीक  वाले ईवेंट PDU के स्वयं परीक्षण हैं जिन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

✓ प्रतीक के साथ हरे पाठ में दिखाए गए ईवेंट वे ईवेंट होते हैं जिन्हें पीसी पर पहले ही सहेजा जा चुका है।



सभी सहेजें - यह बटन PDU मोड में अक्षम होता है।



देखें - इस बटन को क्लिक करने से चयनित ईवेंट दिखाया जाएगा। विवरण के लिए पृष्ठ 14 देखें।



मिटाएँ - यह बटन PDU मोड में अक्षम होता है।




वापस - Saver EVO® PDU एक्सेस स्क्रीन पर लौटने के लिए इस बटन पर क्लिक करें।

## PDU पर संग्रहित ईवेंट देखना

कोई ईवेंट देखने के लिए, सूची में ईवेंट को हाइलाइट करें और फिर देखें बटन  क्लिक करें।

यह ECG ट्रेस के साथ डिफिब्रिलेशन ईवेंट और ईवेंट लॉग को एक ही दृश्य विंडो में दिखाएगा:



**Saver EVO®  
PDU ईवेंट दृश्य  
विंडो**



अब उपयोगकर्ता सहेजे बटन  को क्लिक करके इस प्रदर्शित ईवेंट को पीसी पर सहेजना चुन सकते हैं। यह रोगी को पहचानने में सक्षम बनाने वाली जानकारी दर्ज करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। रोगी के विवरण में अक्षरांकीय वर्ण हो सकते हैं और यदि यह तो हर फ़िल्ड को भरा या खाली छोड़ा जा सकता है।

**Enter Patient Details**

Subject0001

Record Type:	Subject
Surname:	<input type="text"/>
Forename:	<input type="text"/>
D.O.B.:	<input type="text"/>
Patient ID:	<input type="text"/>
Event Date and Time:	10 Mar 2014 11:35:02 GMT Standard Time
<input type="button" value="New Record Type"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

**Saver EVO®  
PDU रोगी विवरण विंडो**

N.B. एक बार डिफ़िनीलेशन ईवेंट डेटा को आपके पीसी पर सहेज लिए जाने के बाद इस जानकारी को बदला नहीं जा सकता।

Saver EVO® ईवेंट दृश्य विंडो निम्न बटन भी प्रदान करती है:



ईवेंट प्रिंट करें - दृश्य विंडो में वर्तमान में प्रदर्शित किए जा रहे ईवेंट को प्रिंट करने के लिए यह बटन क्लिक करें।



प्रिंट पूर्वावलोकन - इस बटन को क्लिक करने से प्रिंट किए जाने वाले डेटा का पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।




वापस - Saver EVO® ईवेंट लॉग सूची स्क्रीन पर लौटने के लिए इस बटन पर क्लिक करें।

## PDU सेटिंग देखें



सेटिंग देखें बटन क्लिक करने से निम्न PDU कॉन्फिगरेशन स्क्रीन की एक्सेस प्राप्त होगी। यह स्क्रीन उपयोगकर्ता को बैटरी पावर, स्पीकर वॉल्यूम, भाषा और मेट्रोनोम सेटिंग, CPR दर और अवधि और समयसीमा समाप्ति दिनांक, सॉफ्टवेयर संस्करण और PDU डिवाइस का क्रमांक देखने की सुविधा देती है। उपयोगकर्ता इन सेटिंग को केवल देख सकता है और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।



### Saver EVO® PDU सेटिंग देखें विंडो

## Saver EVO® का सहेजे गए ईवेंट के साथ उपयोग करना

Saver EVO® की मुख्य स्क्रीन पर सहेजे गए ईवेंट प्रबंधित करें बटन  उपयोगकर्ताओं को उस ईवेंट डेटा की समीक्षा करने की सुविधा देता है जिसे samaritan® PAD, samaritan® डेटा-पैक बैटरी या PDU स्मृति कार्ड से डाउनलोड किया गया है और कंप्यूटर पर सहेजा गया है।

इस बटन को क्लिक करने पर निम्नानुसार एक विंडो खुल जाएगी:



सूची में किसी ईवेंट को हाइलाइट करने और  देखें को क्लिक करने पर ECG डेटा और ईवेंट लॉग को देखने के लिए सहेजा गया ईवेंट खुल जाएगा।

### निर्यात और आयात

Saver EVO® में ऐसे प्रकार्य हैं जो उपयोगकर्ताओं को उन लोगों को डिफिक्लीलेशन ईवेंट डेटा भेजने या प्राप्त करने की सुविधा देता है जिनके पास Saver EVO® सॉफ्टवेयर है। सहेजे गए ईवेंट की प्रतिलिपियाँ भेजने या प्राप्त करने में Saver EVO® के निर्यात और आयात प्रकार्यों का उपयोग किया जाता है।

### ईवेंट निर्यात करने के लिए।

1. सहेजे गए ईवेंट प्रबंधित करें स्क्रीन से वे एक या अधिक ईवेंट हाइलाइट करें जिन्हें आप निर्यात करना चाहते हैं  और फिर  बटन क्लिक करें।
2. पीसी आपको कंप्यूटर का वह स्थान पूछेगा जहाँ आप निर्यात फाइल को सहेजना चाहते हैं, और आपको निर्यात की गई फाइल का नाम चुनने की सुविधा भी देगा।
3. चुने गए स्थान पर फाइल सहेजने के लिए सहेजें बटन को क्लिक करें।

फिर आप इस फाइल को अपने सामान्य ई-मेल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी ई-मेल में संलग्न कर पाएँगे और निर्यात की गई फाइल को उस अन्य उपयोगकर्ता को भेज पाएँगे जिसके पास Saver EVO® सॉफ्टवेयर है।

**Saver EVO® का ईवेंट डेटा केवल किसी अन्य Saver EVO® उपयोगकर्ता द्वारा ही देखा जा सकता है। पुराना Saver™ सॉफ्टवेयर Saver EVO® से डेटा को सफलतापूर्वक आयात नहीं कर पाएगा और दिखा नहीं पाएगा**

#### ईवेंट आयात करने के लिए

ईवेंट आयात करने के लिए और इन्हें अपने पीसी पर देखने के लिए, किसी अन्य Saver™ या Saver EVO® के उपयोगकर्ता द्वारा आपको भेजी गई फाइल को आपके पीसी पर किसी स्थान पर सहेजना होगा।



1. Saver EVO® सहेजे गए ईवेंट प्रबंधित करें स्क्रीन से बटन को क्लिक करें।
2. वह स्थान ब्राउज़ करें जहाँ फाइल सहेजी गई है और खोलें क्लिक करें।
3. रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर पर Saver EVO® फाइलों की सूची में जोड़ दिए जाएँगे।

इन्हें फिर सूची में ईवेंट को हाइलाइट करके और देखें बटन को क्लिक करके देखा जा सकता है।

**Saver EVO® सॉफ्टवेयर के पुराने संस्करण जिसे Saver™ कहा जाता है, से निर्यात किए गए ईवेंट डेटा को ठीक से आयात और प्रदर्शित करेगा।**

#### सहेजे गए ईवेंट हटाने के लिए

सहेजे गए ईवेंट आपके कंप्यूटर की स्मृति से Saver EVO® द्वारा मिटाए जा सकते हैं। ईवेंट को मिटाए जाने वाले प्रासंगिक ईवेंट को हाइलाइट करके व्यक्तिगत रूप से मिटाया जाता है (एकाधिक ईवेंट चुने जा सकते हैं)।

जब आप यह पुष्टि कर लें कि केवल वे ही ईवेंट चयनित हैं जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं, तब



मिटाएँ बटन पर क्लिक करें। सावधानी के रूप में स्मृति को मिटाने से पहले Saver EVO® आपसे अपना पासवर्ड दर्ज करने को कहेगा। सही पासवर्ड दर्ज किए जाने पर चयनित ईवेंट की स्मृति को आपके कंप्यूटर से मिटा दिया जाएगा।

**सावधानी:** मिटाने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि केवल वे ही ईवेंट चयनित हैं जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं। आपके कंप्यूटर की स्मृति से मिटा दिए जाने के बाद ईवेंट को पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता और पूरी जानकारी नष्ट हो जाती है।

## Saver EVO® में पासवर्ड और भाषा बदलना


Saver EVO® में कुछ ऐसे प्रकार्य हैं जिन्हें पासवर्ड दर्ज करने पर ही बदला या पूर्ण किया जा सकता है। यह व्यवस्थापकों को सॉफ्टवेयर की कुछ निश्चित क्षमताओं की एक्सेस अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक सीमित रखने की सुविधा देता है। Saver EVO® को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड “password” के साथ आपको दिया जाता है।

इस पासवर्ड को अपनी पसंद के पासवर्ड में बदलने के लिए आपको निम्न करना होगा:



## Saver EVO® उपयोगकर्ता निर्देश

इस मुख्य Saver EVO® स्क्रीन से छोटा  बटन क्लिक करें। इससे निम्न विंडो खुल जाएगी:




वर्तमान पासवर्ड दर्ज करें और “पुष्टि करें” क्लिक करें। यह आपको अपना नया पासवर्ड दर्ज करने और उसकी पुष्टि करने की सुविधा देगा। परिवर्तन करने के लिए “लागू करें” क्लिक करें। यह पुष्टि दिखाई देगी कि पासवर्ड सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। इसपर ठीक क्लिक करें और इस प्रकार्य से बाहर निकलने के लिए पासवर्ड बदलें विंडो में पुनः “ठीक” क्लिक करें।

नोट करें कि Saver EVO® को पुनः इंस्टॉल करने पर पासवर्ड सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट पर रीसेट हो जाएगा। हालाँकि यह क्रिया पहले से सहेजे गए किसी ईवेंट डेटा को नहीं निकालेगी।

## Saver EVO® उपयोगकर्ता निर्देश

### भाषा चयन

Saver EVO® सॉफ्टवेयर की भाषा चुनने के लिए, ड्रॉप डाउन सूची से भाषा चुनें और लागू करें क्लिक करें।



लागू करें पर क्लिक करने से निम्न स्क्रीन दिखाई देगी और भाषा परिवर्तनों के प्रभावी होने के लिए Saver EVO® को पुनः प्रारंभ करना होगा।



### स्वचालित अपडेट देखें

यदि सक्षम करें बॉक्स चयनित है तो हर बार Saver EVO® के चालू होने पर यह Saver EVO® का अधिक नवीन संस्करण देखने के लिए HeartSine वेबसाइट से कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। यदि अपडेट उपलब्ध है, तो Saver EVO® के लॉन्च होने पर निम्न विंडो द्वारा आपको संकेत दिया जाएगा।



Saver EVO® का नया संस्करण डाउनलोड करने की इच्छा के अनुसार हाँ या नहीं चुनें।